



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291 ]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2003/अग्राहायण 17, 1925

No. 291 ]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2003/AGRAHAYANA 17, 1925

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं. यू-23013/19/99-एल डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड एतद्वारा निर्देश करता है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 दिनांक 29 नवम्बर, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

उक्त संकल्प में क्रम संख्या (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1) श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह, सदस्य”  
भारतीय मजदूर संघ,  
म्युनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राउंड्स,  
जम्मू-180001

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/19/99-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following

3657 GI/2003

(1)

amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour, Central Advisory Contract Labour Board published in Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated 29th November, 2003, namely :—

In the said Resolution for serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(1) Shri Lakshman Ravinder Singh, Member”  
Bhartiya Mazdoor Sangh,  
Municipal Quarters,  
Parade Grounds,  
Jammu-180001

T. A. SRINIVASAN, Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं. यू-23013/14/03-एल डब्ल्यू.—केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के पंजाब स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

1. श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह, सदस्य  
भारतीय मजदूर संघ,  
म्युनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राउंड्स,  
जम्मू-180001

2. श्री पी.के. शर्मा  
सलाहकार (औद्योगिक संबंध)  
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय  
नई दिल्ली-110001

सदस्य

3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.)  
चण्डीगढ़

सदस्य-संयोजक

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

“ भारतीय खाद्य निगम के पंजाब स्थित प्रतिष्ठान के गोदामों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर लगाने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, वजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यवाहन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिबिम्बित किया जाए अथवा नहीं। ”

3. समिति का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा। समिति को सीधे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

अनुसूची

पंजाब

1. एफ एस डी खरार
2. एफ एस डी फगवारा
3. बरीबस्तर
4. खमानु
5. शेरहिन्द
6. सादिक
7. डोडा
8. बगसर
9. धापा
10. भवानीगढ़
11. डिर्बा
12. मिनक
13. घनौरी
14. घनौला
15. अमरगढ़
16. संधौर
17. एस.ए. होमवाला
18. मच्छीकाड़ा
19. राजकोट
20. मलौड
21. रायपुर किला
22. उच्छंद सिना हरूर

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

हनु

भगुसन

बहरी पञ्जाब

बर्नाल

बोरिन्डा

कुरली

कुरीमुण्डी

कमकौर साहिब

गौरावा

भीगपुर

अपरा

नजराला

तलपंडी

नौर मण्डी

भीकूट

भटिण्डा

रामा मण्डी

नसरा पंडा

मोहे

सोमन

भलोड

दिलवान

गोविन्द गढ़

संचोल

रोपड़

दोआबा कॉलेज

लोडनवाली

रोरू

सुपान्सी

मौर

पनावन

मेहल कलां

मरिन्डा (जि. रोपड़)

मन्सा

रामा

भर्सा

भिविण्ड

खनौरी

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

**RESOLUTION**

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/14/03-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the State of Punjab. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

1. **Shri Lakshman Ravinder Singh,** Member  
Bhartiya Mazdoor Sangh,  
Municipal Quarters,  
Parade Grounds,  
Jammu-180001
2. **Shri P.K. Sharma,** Member  
Adviser (Industrial Relation),  
Railway Board, Ministry of  
Railways, New Delhi-110001
3. **Regional Labour Commis-** Member-Convener  
**sioner (Central)**  
Chandigarh

2. The terms of reference of the committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Re-stacking, Standardization, Weighment, Sweeping and cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the State of Punjab specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the godowns and depots of the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh. The Committee should submit its report at the earliest.

**SCHEDULE****Punjab**

1. FSD Khariar
2. FSD Phagwara
3. Bariwasla
4. Khanpuri
5. Sedind
6. Sadique
7. Doda
8. Bagesar
9. Thapa
10. Bhawani Garh

11. Dirba
12. Minak
13. Ghanauri
14. Dhanaula
15. Amargarh
16. Sandhaur
17. SA Homewala
18. Machhiwara
19. Rajkot
20. Maloud
21. Raipur Kila
22. Ucha and Sina Harrur
23. Hathur
24. Bhadason
25. Bassi Pathana
26. Charnathal
27. Nborinda
28. Kurali
29. Khardmundi
30. Chamkaur Sahib
31. Goraya
32. Bhogpur
33. Apra
34. Nazrula
35. Talwandi
36. Naur Mandi
37. Bhikoot
38. Bhatinda
39. Rama Mandi
40. Nashara Panda
41. Mohay
42. Soman
43. Bhalot
44. Dhilwan
45. Govindgarh
46. Sanghol
47. Roper
48. Deaba College
49. Lodanwali
50. Roru
51. Supansi
52. Mour
53. Panawan
54. Mehal Kalan
55. Marinda (Distt. Roper)
56. Mansa
57. Rama
58. Bharso
59. Bhukhi
60. Khannaauri

T. A. SRINIVASAN, Secy.

## संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं० यू०-23013/18/03-एल.डब्ल्यू.—केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान व हरियाणा स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. श्री पी०एस० परमार              | सदस्य        |
| सचिव, एटक                         |              |
| महासचिव, खेत्री ताम्बा श्रमिक संघ |              |
| डी-95, सैक्टर-2ए, खेत्री नगर,     |              |
| राजस्थान-333504                   |              |
| 2. श्री पवन कुमार                 | सदस्य        |
| मुख्य अभियन्ता,                   |              |
| महानिदेशालय (निर्माण)             |              |
| केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग       |              |
| शहरी कार्य एवं नियोजन मंत्रालय    |              |
| निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011     |              |
| 3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०)     | सदस्य-संयोजक |
| अजमेर                             |              |

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

" भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान व हरियाणा स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर लगाने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, वजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं। "

3. समिति का मुख्यालय अजमेर में होगा। समिति को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

## अनुसूची

## राजस्थान

- |    |               |
|----|---------------|
| 1. | अगर अलवर      |
| 2. | बांदीकुई      |
| 3. | कैम्प खर्ती   |
| 4. | कैम्प चूरी    |
|    | एफ एस डी चूरू |
| 5. | कोटा          |
| 6. | शुंझनू        |
| 7. | सवाई माधोपुर  |

## राजस्थान ( जारी )

- |     |         |
|-----|---------|
| 8.  | भरतपुर  |
| 9.  | निवाई   |
| 10. | धौलपुर  |
| 11. | किशनगढ़ |

## हरियाणा

- |     |                   |
|-----|-------------------|
| 1.  | पलवल              |
| 2.  | भट्ट              |
| 3.  | साहाबाद           |
| 4.  | भरकंदा            |
| 5.  | रतिया             |
| 6.  | डबवाली            |
| 7.  | झाकल              |
| 8.  | टोहना             |
| 9.  | असंध              |
| 10. | एलेनबाद/अटेन्डवाड |
| 11. | कल्लांवली/कलावनी  |
| 12. | डांड              |
| 13. | लडवा              |

टी० ए० श्रीनिवासन, सचिव

## RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/18/03-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Rajasthan and Haryana. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Shri P. S. Parmar,                          | Member   |
| Secretary, All India Trade Union Congress,     |          |
| General Secretary, Khetri Tamba Shramik Sangh, |          |
| D-95, Sector IIA, Khetri Nagar,                |          |
| Rajasthan-333504                               |          |
| 2. Shri Pawan Kumar,                           | Member   |
| Chief Engineer,                                |          |
| Directorate General (Works),                   |          |
| Central Public Works Department,               |          |
| Ministry of Urban Affairs & Employment,        |          |
| Nirman Bhawan,                                 |          |
| New Delhi-110011                               |          |
| 3. Regional Labour Commissioner                | Member-  |
| (Central) Ajmer                                | Convener |

2. The terms of reference of the committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Restacking, Standardization, Weighment Sweeping and Cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Storage Depot, Food Corporation of India in the States of Rajasthan and Haryana specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the godowns and depots of the said jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Ajmer. The Committee should submit its report at the earliest.

#### SCHEDULE

##### Rajasthan

1. Agar Alwar
2. Bandique
3. Camp Kharti
4. Camp Churi  
FSD Churu
5. Kota
6. Jhunjhunu
7. Sawai Madhopur
8. Bharatpur
9. Niwai
10. Daulpur
11. Kishangarh

##### Haryana

1. Palwal
2. Bhattu
3. Sahabad
4. Makkanda
5. Ratiya
6. Dabbawali
7. Jakhal
8. Tohana
9. Asandh
10. Ellenbad/Attendwad
11. Kallanwali/Kalawani
12. Dand
13. Ladwa

T. A. SRINIVASAN, Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं० यू०-23013/19/03-एल.डब्ल्यू.—केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन)

अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश स्थित प्रतिष्ठानों के गोदमों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

1. श्री यू० एम० शंकरदास सदस्य  
सचिव, भारतीय खान कर्मकार संघ  
फ्लैट सं० 403, हारमोनी अपार्टमेन्ट्स,  
ऑफिसर्स कॉलोनी,  
पो० आर० के० पुरम, सिकंदराबाद-500556
2. श्री वी० एस० राव, सदस्य  
कार्यकारी प्रबंध निदेशक  
वी०वी०एस० इंडस्ट्रीज लि०,  
6-2-913/914, तीसरा तल,  
प्रोग्रेसिव टावर, खैरताबाद,  
हैदराबाद-500004
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०) सदस्य-संयोजक  
कानपुर

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

“भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश स्थित प्रतिष्ठानों के गोदमों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर लगाने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, वजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।”

3. समिति का मुख्यालय कानपुर में होगा। समिति को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

अनुसूची

##### उत्तर प्रदेश

1. खटिमा
2. काशगंज
3. शाहजहाँपुर
4. उझानी
5. मैनपुरी
6. मऊ
7. गाजीपुर
8. बलिया
9. उरई
10. गोंडा
11. संडीला
12. गोला गोरखनाथ
13. ज्वालापुर

## उत्तर प्रदेश ( जारी )

14. इटावा
15. बाँदा
16. महुवा
17. बदायूँ
18. एटा
19. विकासनगर
20. पुरनपुर
21. देहरी
22. बिशलपुर
23. उन्नाव
24. सुल्तानपुर
25. देवरिया
26. माली
27. पलिया
28. झांसी
29. ललितपुर
30. अठरा
31. फर्रुखाबाद
32. फैजाबाद
33. प्रतापगढ़
34. राय बरेली
35. बाराबंकी
36. मिर्जापुर

## हिमाचल प्रदेश

1. एफ एस डी नगरोटा
2. कुल्लू
3. हमीरपुर कुठेहाघाट
4. ऊना

टी० ए० श्रीनिवासन, सचिव

## RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/19/03-LW.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

- (1) Shri U.M. Shankar Das, —Member  
Secretary, Indian National Mine  
Workers' Federation

Flat No. 403, Harmony Apartments,  
Officers Colony, P.O. R K Puram,  
Secunderabad—500556

- (2) Shri V.S. Rao, Executive —Member  
Managing Director, V.B.C. Industries Ltd.,  
6-2-913/914, 3rd Floor, Progressive Tower,  
Khairatabad, Hyderabad -500004.
- (3) Regional Labour Com- —Member-  
missioner (Central) Kanpur Convenor

2. The terms of reference of the committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Restacking, Standardization, Weighment, Sweeping and Cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the godowns and depots of the said jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Kanpur. The Committee should submit its report at the earliest.

## SCHEDULE

## Uttar Pradesh

1. Khatima
2. Kashganj
3. Shahjahanpur
4. Ujhani
5. Mainpuri
6. Mau
7. Ghazipur
8. Bahia
9. Orai
10. Gonda
11. Sandila
12. Gola Goraknath
13. Jawalapur
14. Etawah
15. Banda
16. Mahuwa
17. Badaun
18. Etah
19. Bikashnager
20. Puranpur
21. Dehari
22. Bishlpur

**Uttar Pradesh (Contd.)**

23. Unnao
24. Sultanpur
25. Deoria
26. Mali
27. Palia
28. Jhansi
29. Lalitpur
30. Athra,
31. Farukabad
32. Faizabad
33. Pratapgarh
34. Rai Bareilly
35. Barabanki
36. Mirzapur

**Himachal Pradesh**

1. FSD Nagrota
2. Kulhu
3. Hamirpur Kuthcaghat
4. Una

T.A. SRINIVASAN, Secy.

**संकल्प**

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं० यू०-23013/20/03-एल० डब्ल्यू०—केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं गुजरात स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

1. श्री जी०वी०आर० शर्मा —सदस्य  
प्लॉट सं० 604  
आर०टी०ओ० कार्यालय के सामने  
गिरिपेठ नगर-440001
2. श्री वी० मजूमदार —सदस्य  
संयुक्त निदेशक, स्थापना (एल एल)  
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय  
नई दिल्ली-110011
3. सचिव —सदस्य-  
केन्द्रीय ठेका सलाहकार बोर्ड संयोजक  
नई दिल्ली।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

“भारतीय खाद्य निगम के छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं गुजरात स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, वजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें

करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिबिम्बित किया जाए अथवा नहीं।”

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

**अनुसूची****छत्तीसगढ़**

1. बलाड
2. वेमेजाम
3. दुर्ग
4. टिकमगढ़
5. निराडी
6. हरपालपुर
7. छत्तरपुर

**मध्य प्रदेश**

1. डेबास
2. उज्जैन
3. बालाघाट
4. डाबरा
5. कटनी
6. बलसवानी
7. सिवानी
8. वारसियोनी
9. पांडुराना
10. मुरेना

**गुजरात**

1. भोमैया
2. बलसाग्र
3. भरूच
4. थानगढ़
5. बडवॉन
6. सुरेन्द्रनगर
7. मेहसाना
8. वंकनेर
9. भावनगर
10. जामनगर
11. राजकोट
12. गांधीधाम

टी० ए० श्रीनिवासन, सचिव

**RESOLUTION**

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/20/03-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation

and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Chattisgarh, Madhya Pradesh and Gujarat. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

- (1) Shri G.V. R. Sharma, —Member  
Plot No. 604,  
Opp R.T.O. Office, Giripeth,  
Nagpur-440001.
- (2) Shri B. Mazumdar, —Member  
Joint Director, Establishment (LL),  
Railway Board, Ministry of Railways,  
New Delhi-110001.
- (3) Secretary, —Member-Convener  
Central Advisory Contract  
Labour Board, New Delhi

2. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Restacking, Standardization, Weighment, Sweeping and Cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Chattisgarh, Madhya Pradesh and Gujarat specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the godowns and depots of the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report at the earliest.

#### SCHEDULE

##### Chattisgarh

1. Balad
2. Bemejarn
3. Durg
4. Tikamgarh
5. Niradi
6. Harpalpur
7. Chattarpur

##### Madhya Pradesh

1. Debas
2. Ujjain
3. Balaghat

##### Madhya Pradesh (Contd.)

4. Dabra
5. Katani
6. Balasiwani
7. Siwani
8. Waraseoni
9. Khandwa
10. Pandurana
11. Murena

##### Gujarat

1. Bhomaiya
2. Balsad
3. Bharuch
4. Thangarh
5. Badwan
6. Surendra Nagar
7. Mehsana
8. Wankaner
9. Bhawanagar
10. Jamnagar
11. Rajkot
12. Adipur
13. Gandhidham

T. A. SRINIVASAN, Secy.

#### संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं. यू.-23013/21/03-एल.डब्ल्यू.—केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम प. बंगाल तथा बिहार स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

1. डॉ. विवेक मॉन्टीरो, —सदस्य  
सचिव,  
सीटू की महाराष्ट्र प्रदेश समिति,  
मुंबई श्रमिक संघ कार्यालय,  
कवैरी रोड,  
भांडुप, मुंबई-400001
2. श्री रमन कुमार, —सदस्य  
कार्यकारी निदेशक,  
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.,  
इस्पात भवन, लोधी रोड,  
पो. बॉक्स सं. 3049  
नई दिल्ली-110003



## 3. उप मुख्य श्रमायुक्त (के.)

सदस्य-संयोजक

धनबाद

## 2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

" भारतीय खाद्य निगम के असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, पं. बंगाल तथा बिहार स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर लगाने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, यजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका ठस्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं ठस्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

3. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा। समिति को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

## अनुसूची

## असम एवं पूर्वोत्तर राज्य

1. कोलासिब
2. भलुकपोंग
3. गोलाघाट
4. लाइपुली
5. विल्सम नगर
6. जोवैन
7. गोबोम्ब
8. कुमारघाट
9. गुगीगोपा
10. भैयाली
11. जुई शिलांग
12. डेढगाँव
13. मुंकचुन

## सिक्किम

1. जोरथांग
2. रांगपोड

## पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. कृष्णानगर

## बिहार

1. साहेबगंज
2. सीतामढ़ी
3. बेगूसराय
4. जाम्बी
5. हाजीपुर
6. सरिया
7. वरशालिंगंज

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

## RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/21/2003-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Assam and North Eastern States, Sikkim, West Bengal and Bihar. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under :—

- |  |                 |
|--|-----------------|
| (1) Dr. Vivek Monteiro,<br>Secretary,<br>Maharashtra State Committee of<br>Centre of Indian Trade Unions,<br>Office of Mumbai Shramik Sangh,<br>Quarry Road,<br>Bhandup, Mumbai-400001 | Member          |
| (2) Shri Raman Kumar,<br>Executive Director,<br>Steel Authority of India Limited,<br>Ispat Bhawan, Lodhi Road, P.O. Box 3049,<br>New Delhi-110003                                      | Member          |
| (3) Deputy Chief<br>Labour Commissioner (C),<br>Dhanbad  | Member-Convener |

2. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

"To Study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Restacking, Storage, Weighment, Sweeping and cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Assam & North Eastern States, Sikkim, West Bengal and Bihar specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the godowns and depots of the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970."

3. The Headquarters of the Committee shall be at Dhanbad. The Committee should submit its report at the earliest.

## SCHEDULE

## Assam &amp; North Eastern States

1. Kolasib
2. Bhalukpong
3. Golaghat

**Assam & North Eastern States (Contd.)**

4. Laipuli
5. Willamm Nagar
6. Jowain
7. Gobomb
8. Kumarghat
9. Gugigopa
10. Bhaiabi
11. Juyi Shillong
12. Dedhgoan
13. Munkchun

**Sikkim**

1. Jorthang
2. Rangpod

**West Bengal**

1. Bankura
2. Krishnanagar

**Bihar**

1. Sahebgunj
2. Sitamarhi
3. Begusarai
4. Jamvi
5. Hazipur
6. Saria
7. Warshaliganj

T. A. SRINIVASAN, Secy.

**संकल्प**

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

सं. यू.-23013/22/03-एल.डब्ल्यू.—केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य निगम के आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

1. श्री वी. बालासुन्दरम सदस्य  
सहायक महासचिव, एन.एफ.आई.आर.  
एन. 9-बी, मद्रास, बट्टाई स्ट्रीट,  
विलिवक्कम चेन्नई-600049
2. श्री प्रमोद कुमार सदस्य  
कार्यकारी निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (सामान्य)  
रेल मंत्रालय, रेल भवन,  
नई दिल्ली-110001
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) सदस्य-संयोजक  
चेन्नई

**2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—**

“भारतीय खाद्य निगम के आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा स्थित प्रतिष्ठानों के गोदामों एवं डिपुओं में अनाज चढ़ाने व उतारने, ढेर लगाने, ढेर हटाने, पुनः ढेर लगाने, मानकीकरण, वजन करने, बुहारने एवं साफ-सफाई करने जैसे कार्यों, जिसका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है, में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।”

3. समिति का मुख्यालय चेन्नई में होगा। समिति को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

**अनुसूची****आंध्र प्रदेश**

1. कृष्णा केनाल (विजयवाड़ा)
2. दीपापल्ली
3. बाबुली कॉम्प्लेक्स
4. पालाकोल
5. के. सी. डिपो
6. काकातूर नेल्लौर

**पांडिचेरी**

1. पांडिचेरी

**तमिलनाडु**

1. कराईकाल
2. कोयम्बटूर
3. चिदंबरम्
4. सेमरनार कोइल

**कर्नाटक**

1. उडुपी
2. मददूर

**महाराष्ट्र**

1. रत्नागिरि

**उड़ीसा**

1. नयाबाजार
2. निजीपाली

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

**RESOLUTION**

New Delhi, the 8th December, 2003

No. U-23013/22/03-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation

and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of Contract Labour in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States/ Union Territory of Andhra Pradesh, Pondicherry, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and Orissa. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under :—

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| (1) | Shri V. Balasundaram,<br>Assistant General Secretary,<br>National Federation of Indian Railways<br>No. 9-B, Madras Battai Street, Villivakkam<br>Chennai-600049. | Member              |
| (2) | Shri Promod Kumar,<br>Executive Director, Civil Engineering (General),<br>Ministry of Railways, Rail Bhavan,<br>New Delhi- 110001.                               | Member              |
| (3) | Regional Labour<br>Commissioner (Central),<br>Chennai  | Member-<br>Convener |

2. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Loading, Unloading, Stacking, Destacking, Restacking, Standardization, Weighment, Sweeping and cleaning in the godowns and depots of the establishments of Food Corporation of India in the States of Andhra Pradesh, Pondicherry, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and Orissa specified in the Schedule annexed hereto and to make suitable recommendations whether or not the employment of Contract Labour in the said jobs/works in the godowns and depots of the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour

(Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarters of the Committee will be at Chennai. The Committee should submit its report at the earliest.

#### SCHEDULE

##### Andhra Pradesh

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1. | Krishna Canal<br>(Vijayawada) |
| 2. | Depapalli                     |
| 3. | Babuli Complex                |
| 4. | Palakol                       |
| 5. | K.C. Depot                    |
| 6. | Kakatur Nellore               |

##### Pondicherry

- |    |             |
|----|-------------|
| 1. | Pondicherry |
|----|-------------|

##### Tamil Nadu

- |    |              |
|----|--------------|
| 1. | Karaikal     |
| 2. | Coimbatore   |
| 3. | Chidambaram  |
| 4. | Semamar Koil |

##### Karnataka

- |    |        |
|----|--------|
| 1. | Udupi  |
| 2. | Maddur |

##### Maharashtra

- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | Ratnagiri |
|----|-----------|

##### Orissa

- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | Nayabazar |
| 2. | Nhijipali |

T. A. SRINIVASAN, Secy.